



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 4914]	नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940
No. 4914]	NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

---

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2018

**का.आ. 6144(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 23 मई, 2014 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1361 (अ) दिनांक 22 अप्रैल, 2014, जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) की धारा 4 कि उपधारा (1) यथा अपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए अपने आशय का दो मास की अवधि में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त प्राचीन स्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 29 मई, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;


अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा (3) (1958 की 24) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

**बनसूची**

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	प्रस्तावित संरक्षित प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल कनाल और माला में	स्वामित्व	सीमाएं
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
जम्मू और कश्मीर	कठुआ	बसौली	पलाही गांव	त्रिलोचननाथ मंदिर, महाडेरा	खसरा संख्या 1120	4 कनाल 5 माला	मंदिर शिवजी महाराज एवं प्रबंधक (मंदिर का महंत) पृथ्वीनाथ पुत्र श्री सिंगूनाथ जोगी	उत्तर: खसरा संख्या 556 तथा 527 पूर्व: खसरा संख्या 1121 दक्षिण: खसरा संख्या 1119 पश्चिम: खसरा संख्या 1119

[पत्रावली संख्या 2-18/2008-स्मारक]

रूपा शर्मा, महानिदेशक



**MINISTRY OF CULTURE**  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2018

**S.O. 6144(E).**—Whereas by the notification of the Central Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) *vide* number S.O. 1361(E) dated the 22<sup>nd</sup> April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 23<sup>rd</sup> May, 2014, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the Site Plan and Schedule annexed to the notification to be of National importance and a copy of the said notification was affixed at a conspicuous place near the said ancient monument as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And, Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23<sup>rd</sup> May, 2014;

And, Whereas, no objection has been received from the public to the making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the said ancient monument specified in the Schedule and the Site Plan annexed hereto, to be of national importance.

**SCHEDULE**

State	District	Tehsil	Locality	Name of the Monument	Revenue plot Number	Area in Kanal and Marla	Ownership	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jammu and Kashmir	Kathua	Basholi	Village Palahi	Trilochan Nath Temple, Mahadera	Khasra Number 1120.	4 Kanal 5 Marla	Mandir Shivji Maharaj/Manager Shri Prithvi Nath Jogi S/o Shri Singoo Nath Jogi.	North: Khasra Number 556,527. East: Khasra Number 1121. West: Khasra No. 1119. South: Khasra No. 1119.

[F. No. 2-18/2008-M]

USHA SHARMA, Director General

